DLF LIMITED

DLF Gateway Tower, R Block, DLF City Phase – III, Gurugram – 122 002, Haryana (India)

Tel.: (+91-124) 4396000, investor-relations@dlf.in



16th July 2022

To,

The General Manager

Dept. of Corporate Services

The Vice-President

National Stock Exchange of India Limited

BSE Limited Exchange Plaza,

P.J. Tower, Dalai Street, Bandra Kurla Complex, Bandra (E),

Mumbai 400 001 Mumbai-400051

Sub: Newspaper Publication

Dear Sir/Madam,

In compliance with Regulations 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, kindly find enclosed herewith copies of Newspaper advertisement published in Financial Express (English), and Jansatta (Hindi).

This is for your kind information and record please.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **DLF Limited**

R. P. Punjani

Company Secretary

Encl.: As above

For Stock Exchange's clarifications, please contact:

1. Mr. R. P. Punjani – 09810655115 /punjani-rp@dlf.in

2. Mr. Raju Paul - 09999333687 /paul-raju@dlf.in

Place: LUCKNOW (U.P.)

Dated: 16.07.2022

Date: 15.07.2022

Apna Ghar, Apni Pehchai

POONAWALLA HOUSING FINANCE LIMITED APPENDIX IV (SEE RULE 8(1) (FORMERLY KNOWN ASMAGMA HOUSING FINANCE LTD.) POSSESSION NOTICE REGISTERED OFFICE : 602, 6TH FLOOR, ZERO ONE IT PARK. (FOR IMMOVABLE PROPERTY) SR. NO. 79/1, GHORPADI, MUNDHWA ROAD, PUNE - 411036

Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of Poonawalla Housing Finance Limited (Formerly known as Magma Housing Finance Limited) of the above Corporate / Register office under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter referred as the "said Act") and in exercise of the powers conferred under Section 13 (12) of the said Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a demand notice below dated

calling upon the below Borrowers to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him / her under Section 13 (4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules of the Security Interest Enforcement Rules 2002 on this 14th day of July of the year 2022. The borrowers in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Poonawalla Housing Finance Limited (Formerly known as Magma Housing Finance Limited) the

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. Details of Property taken in possession are herein below.

SI. No.	Name of Borrowers	Description of Property	Possession taken Date	Date of Statutory Demand Notice	Amount in Demand Notice (Rs.)
01.	SHIKHA SRIVASTAVA, NITENDRA SRIVASTAVA, SHIKHA MEDICALS	ADMEASURING 98+12=110 SQ. FTS. ONLY ON THE FIRST FLOOR OF THE		22.01.2022	Loan No.; HL/0043/H/18/100026 Rs.18,84,751/- (Rupee Eighteen Lakh Eight Four Thousand Seve Hundred Fifty One Only p a y a b I e a s o 22.01.2022 along wit interest @ 14.75% p.a till the realization.

Poonawalla Housing Finance Limited (Formerly Known As Magma Housing Finance Limited) (Signature)

Authorised Officer

TIGER LOGISTICS INDIA LIMITED

CIN-L74899DL2000PLC105817 Regd. & Corporate office: D-174, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020.

Tel-011-47351111, Fax:011-26229671, 26235205, Website: www.tigerlogistics.in. Email: csvishal@tigerlogistics.in

Statement of Un-Audited Standalone Financial Results for the Quarter Ended 30th June 2022

				100	(Rs in Lakhs	
S.No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2022	Quarter ended 31.03.2022	Quarter ended 30.06.2021	Year Ended 31.03.2022	
0.110.	rainodors	Un-Audited	Un-Audited	Un-audited	Audited	
1	Total Income from Operations	10,801.27	17136.5	8,162.56	61,720.46	
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	611.55	1,211.62	422.38	3,738.18	
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	611.55	1,211.62	422.38	3,738.18	
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	454.28	1,052.30	424.71	3,363.3	
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	423.23	1,060.05	424.71	3,353.1	
6,	Equity Share Capital	1,057.25	1,057.25	1,057.25	1,057.2	
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	2	2		6,385.7	
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -					
	1. Basic:	4	10.03	4.02	31.72	
	2. Diluted:	4	10.03	4.02	31.72	

 The above unaudited financial results for the quarter ended June 30th, 2022 of Tiger Logistics (India) Limited (the "Company" have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on July 14th, 2022, in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Statutory Auditor of the Company has carried out Limited Review of the aforesaid results. These unaudited financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principals laid down in

- Indian Accounting Standards 34 Interim Financial Reporting ("Ind AS 34") prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and other accounting principal generally accepted in India and in accordance with the requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, as amended. The figures for the corresponding previous periods have been regrouped/reclassified wherever necessary, to make them
- The above unaudited Financial Results of the Company are available on the Company's website www.tigerlogistics.in and also on the website of BSE i.e www.bseindia.com where the shares of the Company are listed.

For Tiger Logistics (India) Limited

Managing Director (DIN: 00147977)

Place: New Delhi Harpreet Singh Malhotra



CIN: L65991MH1999PLC123027 Registered Office: HDFC House, 2nd Floor, H.T. Parekh Marg, 165-166, Backbay Reclamation,

Churchgate, Mumbai - 400 020. Phone: 022 66316333 • Toll Free Nos: 1800-3010-6767 / 1800-419-7676 Fax: 022 22821144 • e-mail: hello@hdfcfund.com • Visit us at: www.hdfcfund.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that HDFC Trustee Company Limited, Trustee to HDFC Mutual Fund ("the Fund") has approved the following Distribution under Income Distribution cum Capital Withdrawal ("IDCW") Options in HDFC Arbitrage Fund, an Open-ended Scheme investing in Arbitrage Opportunities ("the Scheme") and fixed Thursday, July 21, 2022 (or the immediately following Business Day, if that day is not a Business Day) as the Record Date for the same:

Name of the Scheme / Plan(s) / Option(s)	Amount of Distribution (₹ per unit)#	Face Value (₹ per unit)	Net Asset Value ("NAV") as on July 14, 2022 (₹ per unit)
HDFC Arbitrage Fund - Wholesale Plan - Regular Plan - Normal IDCW Option (Payout and Reinvestment)			10.428
HDFC Arbitrage Fund - Wholesale Plan - Direct Plan - Normal IDCW Option (Payout and Reinvestment)	0.040	10.00	10.816
HDFC Arbitrage Fund - Wholesale Plan - Regular Plan - Monthly IDCW Option (Payout and Reinvestment)		10.00	10.794
HDFC Arbitrage Fund - Wholesale Plan - Direct Plan - Monthly IDCW Option (Payout and Reinvestment)			10.511

Amount of distribution per unit will be the lower of the rate mentioned above or the available distributable surplus (rounded down to a multiple of five at the third decimal) as on the Record Date.

Pursuant to the Distribution, the NAV of the IDCW Option(s) of the above Scheme would fall to the extent of such distribution and statutory levy, if any.

Amount will be paid, net of applicable tax deducted at source (TDS), to those Unit holders / Beneficial Owners whose names appear in the Register of Unit holders maintained by the Fund / Statements of Beneficial Ownership maintained by the Depositories, as applicable, under the IDCW Option(s) of the aforesaid Scheme on the Record Date (including investors whose valid purchase / switch-in requests are received by the Fund and the funds are available for utilization before cut-off timings in respect of the aforesaid Scheme, on the Record date).

With regard to Unit holders who have opted for Reinvestment facility under the IDCW Option(s), the amount due (net of applicable TDS) will be reinvested, by allotting Units at the ex-Distribution NAV per Unit (adjusted for applicable stamp duty).

Unit holders are advised to opt for payout through electronic mode(s) at the earliest due to the inherent benefits of such mode(s) such as convenience of the credit of the distribution proceeds into their bank account directly as also avoiding loss of payment instruments in transit or fraudulent encashment. Please arrange to send us a copy of a cancelled cheque of your bank account to have the electronic payout mode enabled.

Intimation of any change of address / bank details should be immediately forwarded to the Investor Service Centres of the Fund (for units held in non-demat form) / Depository Participant (for units held in demat form).

In view of individual nature of tax consequences, each investor should seek appropriate advice.

For HDFC Asset Management Company Limited (Investment Manager to HDFC Mutual Fund)

Date : July 15, 2022 Authorized Signatory MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME

RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

युनियन बैंक Inion Bank

> **Branch Sushant Lok** G/6A, Bestech Central Square Mall, Sector-57, Gurgaon, Haryana-122002

Sale Notice for Sale of immovable property

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged / charged to the Secured Creditor, the symbolic possession of which has been taken by the Authorized Officer of Union Bank of India (secured creditor), will be sold on "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is" on the date mentioned below, for recovery of dues as mentioned hereunder to Union Bank of India from the below mentioned Borrower(s) & Guarantor(s). The Reserve Price and the Earnest Money Deposit are also mentioned hereunder.

Name of the 1. Mr Ankur Mishra Amount due Rs. 20,55,041.99 as on Borrower & H.No. 974, 2nd Floor, Shakti Khand -IV, Indirapuram, Ghaziabad, Guarantor(s) Uttar Pradesh 201014 29.12.2021 with further interest, cost & 2. Mrs. Pooja Mishra expenses. H.No. 974, 2nd Floor, Shakti Khand -IV, Indirapuram, Ghaziabad Uttar Pradesh 201014

Description of immovable Property: All that piece and parcel of Residential Plot situated H. No. 974. 2nd Floor, Shakti Khand-IV, Indirapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201014 East - 24.5 ft wide Road, West - Other Property.

North - Plot No. 975. South - Plot No 973

Dated :27-06-2022

FINCORP

Place : Punjab

POONAWALLA

Date & Time of E-Auction: 24.08.2022 from 11.00 AM to 3.00 PM (with 10 min unlimited auto extensions) Reserve Price: Rs. 40,00,000/- (Forty Lakhs Only) Earnest money to be deposited: Rs. 4.00.000/- (Four Lakhs Only)

For detailed terms and condition of the sale, please refer to the link provided in https://www.ibapi.in, and https://www.unionbankofindia.co.in//english/TendelViewAllAuction.aspx

For Registration and Login and Bidding Rules visit

https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp

Place: Gurgaon

POONAWALLA FINCORP LIMITED APPENDIX IV [SEE RULE 8[1]]

(FORMERLY KNOWN AS MAGMA FINCORP LIMITED) POSSESSION NOTICE Registered Office: 601, 6th Floor, Zero One IT Park, (FOR IM MOVABLE PROPERTY Sr. No. 79/1, Ghorpadi, Mundhwa Road, Pune – 41 1036

whereas, the undersigned being the Authorsed Officer of Poonawara Fincorp Limited (Formeny Kilown as Magina Fincorp Limited) of t above Corporate/Register office, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 [there mafter referred as the "said Act"] and in exercise of the powers conferred under Section 13 [2] of the said Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a demand notice below dated calling upon the below Borrowers to expay the amount mentioned in the notice with in 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has

taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13 (4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules of the Security Interest Enforcement Rules 2002 on this 5th day of July of the year 2022. The borrowers in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Poonawalla Fincorp Limited | Formerly known as Magina Fincorp Limited) the amount and interest thereon.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. Details of Property taken in possession are here in below . Name of Description of Possession Date of Amountin

No.	Borrowers	Property	taken Date	statutory Demand Notice	Demand Notice (As.)
סו	JAGER SINGH, RANI, JS SAW MILL	ALL THAT PIECE AND PARCEL OF MORTAGED PROPERTY OF PROPERTY COMPRISING IN KHEVAT/ENSTON NO. 164/216 UNDER KHASRA NOS. 1027/636/328 [1-7], 372[1-15], 377[0-3], 378[0-31], 463[1-16], 324[0-8], 325[4-0], 326[4-0], 327 [4-0], 935/328[1-12], 1026/936/328 [0-3] KITE 11 RAKBA 19 BIGHA 7 BISWA ITS 156/7740 SHARE MEASURING 7 BISWA 16 BISWASI SITUATED AT SINGHPURA, HADBAST NO. 43, MC ZIRAKPUR, TEHSIL DERABASSI, DISTI SAS NAGAR MOHALI		23.02.2022	Loan No. HL/0038/H/ 13/000141 Rs. 64,39,580,69/- Rupees Sixty Four Lakhs Thirty Nine Thousand Five Hundred and Eighty Only) payable as on 23.02.22 along with Interest @ 14.80% till the realization.
W				Aut	horised Officer

Poonewelle Fincorp Ltd. (Formerly known as Magma Fincorp Limited)

Yours Faithfully

Authorised Officer

FOR UNION BANK OF INDIA

Dated: 16.07.2022 (Signature)

FRR Group, 11th Floor, Hyatt Regency Complex, IndusInd Bank (a) New Tower, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 Notice under Section 13(2) of the Securitization and Reconstruction of

Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("the Act") Notice is hereby given to the borrower / mortgagors / guarantors, who have defaulted in the repayment of principal and interest of loan

facility obtained by them from the Bank and whose loan account has been classified as Non-Performing Assets (NPA) on 01st May, 2022 . The notices were issued to them on 08-July-2022 under section 13(2) of Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest, 2002 (SARFAESI Act) on their last known addresses calling upon and demanding from them to repay the entire outstanding of Rs. 5,60,56,325 /- (Rupees Five Crore Sixty Lac, Fifty-Six Thousand Three Hundred Twenty-Five only) as on 31.05.2022 aand further interest and penal interest at the applicable rate of interest from 01.06.2022 and any other costs, charges expenses incurred thereon, less credit if any. However, few of the notice(s) have returned un-served and as such they are hereby informed by way of this public notice.

Name of the Borrower: 1. Round O Clock Services Private Limited (Borrower) 12/21, Shakti Nagar, New Delhi-110007 Also At: SU-205, Vishakha Enclave. Block-SU, Pitampura, New Delhi-110034.

Shashi Kant Grover (Guarantor) SU-205, Vishakha Enclave. Block-SU Pitampura, New Delhi-110034. Kunal Malik (Guarantor) 12/21, Shakti Nagar, New Delhi-110007

Kiran Grover (Guarantor) SU-205, Vishakha Enclave. Block-SU Pitampura, New Delhi-110034

Details of Secured Assets: First and exclusive charge on hypothecation of Book debt.

First and exclusive charge on hypothecation of the inventory. Collateral: Equitable mortgage by way of Deposit of Title Deeds by the Owner ("the mortgagor") to the Bank of immovable properties

Owner/Mortgagor Description of Immovable Properties

Description of infinovable Properties	Owner/mortgage	
Property being Residential Plot no. 205, in Block No. SU, area measuring 84 sq. mtrs. Vishakha Enclave, Pitampura New Delhi Bounded as: North: Road, South: Road, East: Plot No. 206, West: Plot No. 204.	Shashi Kant Grove	
The above name borrower and their guarantors & mortgagors are hereby called upon to make payment of outstan	ding amount within 6	

days from the date of publication of this notice failing which further steps will be taken after expiry of 60 days under sub-section (4) or

Section 13 of SARFAESI Act, 2002. Date: 15.07.2022 For Industrid Bank Ltd. Place: Delhi **Authorised Officer**

यूभियम बैंक 🕼 Union Bank 8Branch Office: Tohana Road, Ratia, Distt. Fatehabad Haryana

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY) [RULE 8(1)]

Whereas, the undersigned being the authorized officer of the Union Bank of India under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Second) Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued/published notices upon the borrowers to repay the amount mentioned in the notices within 60 days from the date of receipt of the said notices.

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers/Mortgagors/Guarantor in particular and the public in general that the undersigned has taken Symbolic Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rule on the dates mentioned against accounts.

The borrowers/Mortgagors/Guarantorin particulars and the public in general is hereby cautioned not to deal with the properties and any dealings with the properties will be subject to the charge of the Union Bank Of India for an amount mentioned herein below besides interest and other charges/expenses against accounts.

Name of Account	Description of Property taken in Possession	Date and Amount of Demand Notice	Date of Taking Possession	
M/s Kavita Cloth House Prop. Mr. Harish Kumar S/o Mr. Kashmiri	5 Marla i.e. 5/52 share of 2 kanal 12	Rs. 1508748.18/- and inter		
Lal and Mrs. Kavita Rani alias Mrs Krishana Rani W/o Mr.	Marlas comprised in knewat no. 27	, Khatauni no. 35 bearing k	hasra no. 697/2	

Description of Property

(2-10) 849 (0-2) situated in Ratia. Teh. Ratia Distt. Fatehabad in the name of Harish Kumar Kavita Rani as per Sale deed no. 2943 dated 02.12.2013 registered with sub-Registrar Bounded as under:- On the North by Street, On the South by House of Gagan Singh, On the East by Plot

of Komal Rani W/o Vinod Kumar, On the West by Plot of Smt. Rekha Rani W/o Satpal Singh. Date: 15.07.2022 Authorised Officer (UNION BANK OF INDIA) Place: Ratia

POONAWALLA HOUSING FINANCE Apna Char, Apni Pehchan

HFX0399/H/19/100216

DATE: 16.07.2022

POONAWALLA HOUSING FINANCE LIMITED (FORMERLY KNOWN ASMAGMA HOUSING FINANCE LTD.) REGD.OFFICE:602, 6TH FLOOR, ZERO ONE IT PARK, SR. NO. 79/1. GHORPADI. MUNDHWA ROAD. PUNE 411036

DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SARFAESI ACT, 2002

You the below mentioned Borrowers/ Co-borrowers /Guarantors have availed Home loans/Loans agains Property facility (ies) by mortgaging your Immovable property/ies from Magma Housing Finance Ltd "MHFL" now renamed as Poonawalla Housing Finance Ltd "PHFL". You defaulted in repayment and therefore, your loan/s was classified as Non-Performing Assets. A Demand Notice under Section 13(2) of Securitisation and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security Interest Act 2002 for the recovery of the outstanding dues sent on last known addresses however the same have returned un-served. Hence the contents of which are being published herewith as per Section 13(2) of the Act read with Rule 3(1) of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 as and by way of Alternate Service upon you.

Details of the Borrowers, Co-borrowers, Guarantors, Securities, Outstanding Dues, Demand Notice sent under Section 13(2) and Amount claimed there under are given as under

SR. NG.	NAME OF THE BORROWER, COBORROWER, GUARANTOR AND LOAN AMOUNT		DEMAND NOTICE DATE	AMDUNT DUE IN RS.
1.	SUNIL, SHOBHA,ANKUR LOANAMOUNT: RS. 1200000/- LOANNO: HM/0245/H/17/100358	ALL THAT PIECE AND PARCEL OF MORTGAGE PROPERTY KHAS RANO.542D, VILLAGES ETHLI, TEHSIL DADRI DISTT GAUTAM BUDH NAGAR (U.P.) NOIDA PIN-203207	000000000000000000000000000000000000000	RS. 1239231/- (RUPEES TWELVE LAKE THIRTY NINE THOUSAND TWO HUNDRED THIRTY ONE ONLY)TOGETHER WITH FURTHER INTEREST @ 15.5 % PA TILL REPAYMENT.
2.	PINKI SHARMA, DINESH KUMAR LOANAMOUNT: RS.1925000/- LOANNO:	ALLTHAT PIECE AND PARCEL OF MORTGAGED PROPERTY OF FREEHOLD RESIDENTIAL NAGAR NIGAM HOUSE NO. 242 ADMEASURING AREA 84 SQ.YDS. SITUATED AT VILLAGE DAULATPUR PARGANA LONI, TEHSIL &		RS. 1766462.71 (RUPEES SEVENTEEN LAGS SIXTY SIX THOUSAND FOUR HUNDRED SIXTY TWOAND SEVENTY ONE PAISAS ONLY) TOGETHER WITH FURTHER INTEREST @ 14.00% PATILL REPAYMENT.

You the Borrower's and Co-Borrower's/Guarantors are therefore called upon to make payment of the above-mentioned demanded amount with further interest as mentioned hereinabove in full within 60 Days of this Notice failing which the undersigned shall be constrained to take action under the act to enforce the above mentioned security/ies. Please Note that as per Section 13[13] of The Said Act, You are in the meanwhile, restrained from transferring the above-referred securities by way of sale, lease or otherwise without our consent. FOR POONAWALLA HOUSING FINANCE LTD PLACE: NOIDA / GHAZIABAD (FORMERLY KNOWN AS MAGMA HOUSING FINANCE LTD)

DISTRICTGHAZIABAD (U.P.)

New Delhi

AUTHORIZED OFFICE

GREAVES FINANCE

GREAVES FINANCE LIMITED

(formerly known as Greaves Leasing Finance Limited) Corporate Identity Number: U29299MH1958PLC011250 Registered Office: Unit No. 1A, 5th Floor, Tower 3, Equinox Business Park, LBS Marg, Kurla (W), Mumbai - 400070. Telephone: +91 - 22 - 41711700; E-mail: investorservices@greavescotton.com;

Website: www.greavesfinance.com

PUBLIC NOTICE

Greaves Finance Limited (formerly known as Greaves Leasing Finance) Limited) ("the Company"), a company incorporated under the Companies Act. 1956 (CIN: U29299MH1958PLC011250) having its registered office at Unit No. 1A, 5th Floor, Tower 3, Equinox Business Park, LBS Marg, Kurla (W), Mumbai - 400070, is registered with Reserve Bank of India ("RBI") as Non-Deposit accepting Non-Banking Financial Company, vide Certificate of Registration No. 13.00422 dated 24th March, 1998 ("Certificate").

Public notice is hereby given that the original Certificate of Registration No. 13.00422 dated 24th March, 1998 issued by the RBI in the name of the Company has been lost/misplaced and not traceable. If any person(s) finds it, they are requested to return the same to the Company at the below mentioned address:

Greaves Finance Limited, Unit No. 1A, 5th Floor, Tower 3, Equinox Business Park, LBS Marg, Kurla West, Mumbai - 400070. Phone: 022 41711700.

General public are hereby advised to beware of unscrupulous elements against misutilization of the Certificate in the name of the Company. Members of the public dealing with such elements would be doing so at their own costs and consequences, for which the Company shall not in any way be responsible.

Misuse of the Certificate or any clarification in this regard shall be brought to the notice of Mr. Ravindra Pathak, Whole-time Director, Phone: 022 41711700; Email: investorservices@greavescotton.com Anyone found misusing the Certificate shall be liable for strict legal actions including civil and criminal consequences.

> For Greaves Finance Limited Ravindra Pathak

Date: 15th July, 2022

Place: Mumbai

Regd. Office: Shopping Mall, 3^{rt} Floor, Arjun Marg, Phase-I, DLF City, Gurugram - 122 002 (Haryana) CIN: L70101HR1963PLC002484 Tel.: +91-124-4334200

Website: www.dlf.in; Email: investor-relations@dlf.in

DLF

Whole-time Director

NOTICE FOR HOLDING 57th ANNUAL GENERAL MEETING & FIXING OF RECORD DATE FOR PAYMENT OF DIVIDEND

The 57th Annual General Meeting (AGM) of DLF Limited will be held on

Wednesday, 10 August 2022 at 12.30 P.M. (IST) through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio Visual Means ('OAVM') in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act') and the Rules made thereunder, the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, ('SEBI Regulations' read with General Circular No. 2/2022 dated 5 May 2022, General Circular No. 02/2021 dated 13 January 2021, General Circular No. 20/2020 dated 5 May 2020, General Circular No. 14/2020 dated 8 April 2020 and General Circular No. 17/2020 dated 13 April 2020 and other applicable Circulars ('Circulars') issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and the Securities Exchange Board of India ('SEBI') to transact the business as set-out in the Notice calling the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC/ OAVM. Members participating through the VC/ OAVM facility shall only be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act. In compliance with the Act, SEBI Regulations and the circulars, the

Annual Report (including Standalone and Consolidated Financial Statements, Auditor's Report, Board's Report, Notice of the AGM and other documents) will be sent to all the Members of the Company whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.dlf.in and on the website of the Stock Exchanges, i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively and National Securities Depository Limited ("NSDL") at https://www.evoting.nsdl.com.

Manner of registering / updating e-mail addresses:

(a) Members holding shares in physical mode, who have not registered/ updated their e-mail addresses with the Company, are requested to register/ update the same by writing to the Company with details of folio number, complete address and attaching selfattested scanned copy of the PAN Card and any other document (such as bank statement, voter ID, Aadhaar card, passport) in support of the address of the Member as registered with the Company, by e-mail to investor-relations@dlf.in.

(b) Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered/ updated their e-mail addresses with their Depository Participant(s) are requested to register/ update their e-mail addresses with the Depository Participant(s) with whom they maintain their demat accounts

Manner of casting vote(s) through e-voting:

(a) Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set-out in the Notice of the AGM through electronic voting system ('e-voting').

(b) The manner of voting remotely ('remote e-voting') by members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their e-mail addresses has been provided in the Notice of the AGM. The details will also be available on the website of the Company at www.dlf.in and on the website of NSDL at https://www.e-voting.nsdl.com

(c) The facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and Members participating in the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM through e-voting.

(d) The login credentials for casting votes through e-voting shall be made available to the Members through e-mail. Members who do not receive e-mail or whose e-mail addresses are not registered with the Company/ Depository Participant(s), may generate login credentials by following instructions given in the Notes to the

(e) The same login credentials may also be used for attending the AGM through VC/ OAVM.

Record Date for payment of Dividend:

(a) The Company has fixed Wednesday, 3 August 2022 as the 'Record Date' for determining entitlement of Members to dividend, recommended by the Board of Directors of the Company for the financial year ended 31 March 2022.

(b) Subject to approval of the Members at the AGM, the dividend will be paid within stipulated time as prescribed under the Act from the conclusion of the AGM, to the Members whose names appear on the Company's Register of Members as on the Record Date, and in respect of the shares held in dematerialized mode, to the Members whose names are furnished by National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited as beneficial owners as on that date.

(c) As per the above Circulars, payment of dividend shall be made through electronic mode to the members who have updated their bank account details. Dividend warrants/ demand drafts will be despatched to the registered address of the members who have not updated their bank account details, through postal service.

(d) Pursuant to the Finance Act, 2020, payment of dividend will be subject to deduction of tax at source ('TDS') at applicable rates. For more details, please refer to the Notes to the Notice of AGM

and website of the Company at www.dlf.in. 6. Manner of registering mandate for receiving Dividend:

Members are requested to register/ update the complete bank details: (a) with their Depository Participant(s) with whom they maintain their demat accounts, if shares are held in dematerialised mode, by submitting forms and documents as may be required by the Depository Participants; and

(b) with the Company/ KFin Technologies Limited by emailing at investor-relations@dlf.in or einward.ris@kfintech.com, if shares are held in physical mode, by submitting (i) scanned copy of the signed request letter which shall contain member's name, folio number, Bank details (Bank account number, Bank and Branch Name and address, IFSC, MICR Code); (ii) self-attested copy of the PAN Card; and (iii) cancelled cheque leaf.

7. Members are requested to carefully read all the Notes set-out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or through e-voting at the AGM and payment of dividend.

For DLF LIMITED

Gurugram 15 July, 2022

(R.P. Punjani) Company Secretary

"IMPORTANT" Whilst care is taken prior to acceptance of

advertising copy, it is not possible to verify its contants. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals adversing in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

financialem epar.in

Place: Mumbai

बी/ओ-नीएडा सेक्टर-16, फोन : 0120-251143। ईमेल : cb2711@canarabank.com कब्जा सूचना [शारा 13 (4)] (अचल सम्पित के लिये)

करना पूरवर्गा (आपा 13 (4)) (अपास सम्पति के लिये)
जेक कि, विवेच परिवर्शनों के के ब्रिकेश के प्राप्त के कि लिये)
जेक कि, विवेच परिवर्शनों के के ब्रिकेश के प्राप्त के अधिक कि क्षा के कि व्यक्ति के अधिक कि अधिक की कि अधिक की अधिक की

डीएलएफ लिमिटेड

DLF

केनग बैंक

57वीं वार्षिक आम बैतक के आयोजन और निर्धारित करने की सूचना

कम्पनी अधिनियस, 2013 (अधिनियस) के लागू प्राव्यानों और उसके अधीन बनाए पर नियामें, आर्थित प्रशिक्त करिने के लागू प्राव्यानों और उसके अधीन बनाए पर नियामें, आर्थित प्रशिक्त परिवास विश्वित पर विकास विश्वित पर विश्वित पर विश्वित पर विश्वित पर विश्वित पर विश्वत पर नियम अधिन पर विश्वत करिने पर विश्वत अधिन पर विश्वत पर विश्वत करिने के बहु कर पर विश्वत करिने के बहु कर विश्वत करिने के बहु कर विश्वत करिने के बहु कर विश्वत करिने के अधिन, 2022 सिमान परिवत के वहुँ 2022 सामान्य परिवत के वहुँ 2022 सामान्य परिवत के 20, 2020 केरित के अधिन, 2020 और तमान्य परिवत के वहुँ 2020 सामान्य परिवत के उद्योग हुए 2020 और तमान्य परिवत के वहुँ 2020 सामान्य परिवत के अधिन, 2020 और तमान्य परिवत के वहुँ 2020 सामान्य परिवत के अधिन, 2020 और तमान्य परिवत के वहुँ 2020 सामान्य परिवत के उद्योग हुए 2020 और तमान्य परिवत के वहुँ 2020 सामान्य परिवत के वहुँ 2020 और तमान्य परिवत के वहुँ 2020 सामान्य परिवत के वहुँ 2021 सामान्य परिवत के प्रयोग के वहुँ विश्वत के प्रयोग के वहुँ विश्वत के प्रयोग के

जाराना (चरपमा) केवस होने (भीत) आप्रियार के माध्यम से प्रभाव के स्वाचिक के हिल्ल स्वाच्या होने (भीत) आप्रियार के स्वचिक से एंजिएन के ह्याचिक के हुए की कार्या के सामित के सामित के हुए की कार्या के सामित के सामित के हुए की कार्या के सामित के स

(8) यह लीमदन क्रीजीरियाटस वीसी) / आंपणीएम के माध्यम से पंजीएम में शामित होने के किए पर्यापों में किया जा सकते हैं। लागांच एवं उसके मुणातन के तिए परिकार विशिष्ट सामांच एवं उसके मुणातन के तिए परिकार विशिष्ट (8) कम्ममी ने 31 मार्च 2022 को समाप्त विशीष वर्ष के लिए कम्मां के निर्देशक महत्त हात्रा अञ्चलित लागांच के लिए परवारों को पात्रता के निर्धाल के लिए युवाबर 3 अगस्त, 2022 को पिकार विशिष्ट कर का मी मीमित किया के लिए युवाबर 3 अगस्त, 2022 को पिकार विशिष्ट कर का मी मीमित किया के लिए युवाबर 3 अगस्त निर्धाल के अर्थान निर्धाल के अर्थान, लागांच एक क्ष्म, लागांच के बात विशिष्ट के अर्थान निर्धाल के अर्थान निर्धाल के अर्थान, लागांच के अर्थान निर्धाल के स्थाल के अर्थान निर्धाल के अर्थान निर्धाल के स्थाल के अर्थान निर्धाल के स्थाल के स्

लागांध प्राप्त करने क तिथ् म बंदिहावासकृत पश्च प्रचानुक करना का प्राक्रभः स्वरूप वे अनुस्ति है कि अंत्रमान् पृत्त के विद्यान पात्रीकृत प्रभावदे कराएं.
(क) से सदस्य जिनके श्रेयर वितिष्ट प्रमाणी में हैं, है अपने सभी फाँगे व स्वरात्तिक अमरे कियों जिस्से आर्थित स्वरात्तिक अमरे कियों जिस्से मार्थित है कि एक स्वरूप के स्वरूप में आर्थित के स्वरूप में अनुस्त्र है कि एक स्वरूप के स्वरूप में अनुस्त्र है कि एक स्वरात्ता किया करा किया कर प्रचार कर नाम एवं यता, आर्ट्सप्रस्त्र कि स्वरूप के स्वर्ध के स्वरूप के स्वर

गय वक का कम्मी/कींगन टेक्नोलॉजीजा प्राइदेट तिमिटेड के हूं-मेल investor-relations@dff.in गा einvard.ris@dfintech.com पर मेले! सदस्यों के दूर्वरोश है कि एजीएम की सूचना में दिये गये तभी नोट्स आं विशेषकर एजीएम में मानिक होने के निर्देश तथा रिमोट ई-चोटिन वा एजीएम के दौरान ई-चोटिन के मान्यम से वाट देने की प्रक्रिया तथा लागांश के युनतान के विवरणों को मली-मांति पढ़ लें।

कते डीएलएफ लिमिटेड गुरूग्राम 15 जुलाई, 2022

इंडियन बेंक 🐇 Indian Bank

दिनांक- 15.07.2022

प्राधिकृत अधिकारी

का कोई संव्यवहार इंडियन बैंक (पूर्ववर्ती इलाहाबा 13 की उपधारा (8) के उपबंधी की ओर आकृष्ट किया

वकाया राशि क आवासी प्रशास हुए हैं। क आवासी प्रशास हुए हो हो है कि का अवस्था हुए हैं। जनपुर जैजा, नगर पालिका परिषद धामपुर की सी 5 बाहर, परगना और तहसील धामपुर जि शासा प्रमानुद्ध । से वार्त में प्रशास प्रमानुद्ध । से वार्त में सीप है है है जो में प्रशास के प + व्याज + अन्य खर्चे 11.07.202

दारा कैपियल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड ११के तम. एकड र पेंड्युक किसेत पार्ड पार्वा तम. एकड र पेंड्युक किसेत पार्ड पार्वा वा व्या माँ, तीजा पीन, वृद्ध - 40001. CM N. 18/1964/18698/CMSSSS

ामका का कहा की लीक तेक पूर्वी 2001.
(भी तही के साम के सिक्स में 10 कि 10 कि

श्री शीरा प्रसारिक विकासार के रूप इ.ट.स्टर्ट की स्ट 2001247- (स् री) नथा शीपनी बेती उन्हें बेती रानी (स्त्र: उद्याधाक)

चौरही: पूर्वः जैन सारित्व के स्वाधित्व का प्लोट, परिचयः विकेता के स्वाधित्व का प्लॉट, उत्तरः अन् व्यक्ति की सम्पत्ति, दक्षिणः रोढ 25' (7.62 वर्ग मी.) चौद्रा।

्रमिक्तिकार आर्थना (विका) ते कहा तो प्रवेश के लागा के अध्यक्ष सुद्धा के प्रविद्धा के प्रविद्ध

1. प्रकार करण करणावार करणाव कर वह पर साथ करणाव करणाव

अपन ए सार्गजनिक उद्योगणा [भारत दिवाला तथा दिवालिग्य पंडल (कॉवीट व्यक्तियों के रित्य दि विनियमन, 2016 के दिनियणन 6 के अंतर्गत] विशिव्यम् अस्य क्षेत्रकारको के श्रे कोस्ट रिश्रन्टसं प्राइवेट लिपिटंड के स्टॅक्शास्त्रों के श्रे समिति विवस्त समिति निसम् कार्पीर उद्याधाक का नाम कार रोअस्टर समुदेर है कार्पीर उद्याधाक के नामन की सिम अह शास्त्रिकरण मानक अनाव कार्पार कम्मनी तीनस्ट्रार दिल्ली अहम शास्त्रिकरण मानक अनाव कार्पार कम्मनी तीनस्ट्रार दिल्ली अहमशाक रिगमिक्य नीकृत है

্রাক্তরণাঞ্চল হ কার্যাইল ঘরবান মার্যাক্তরণাজ্ঞানিক ফ্রান্সাজে ক্রা মিনিটার লাফ্রিমিনটা স্কলান মার্যা

अभाग पा प्रश्निक हो जाता पत्र तथा है पत्र होते प्रयाद को अभित हो है जा जा है जा उस स्वस्तान में जाए जा के अपने को प्रयाद को अभित है जा जा है जा उस स्वस्तान में जाए जा है अपने को पत्र को अपने अपने के अपने अपने प्रयाद को अपने अपने को अपने अपने प्रशाद की अपने अपने के अपने अपने प्रयाद की प्रयाद की जा है जा जा कर स्वस्तान में जाए जा की की नागा । त. (क) अभीव पत्र प्रशाद की जा कि आपने अपने की की की नागा की जा की की नागा की जा क

्राहरू-अर्थाप्याला परिस्तृष्पत्तियों ∕अञ्चल सम्पत्तियों का विवारणः विक्री प्रतेख में वर्णित सभी सामूहिल प्रतिकृत पारतम्पत्तायाः अवस्त राम्पातया के व चित्रराताः विकार प्रतिक्ष प वामत राभा राम्पुतक राष्ट्रियां के साथ ग्राम ग्वासिरा परणणा, बार आवादी आर.के. पुरप कॉलोगी, तस्सील एवं निना सहराणपुर (जतर प्रदेश) में दिश्त आवादीय प्लोट, माप 120 वर्ग गाईद, अर्थात् 1003 वर्ग गी. (साहबूत-पूर्व 40' एवं परिचम 40'×जतर 39' एवं दक्षिण 15') जो खरसरा नं. 77 में शामिल है। **OSBI**

भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा—।।, विआई हाऊस, चौथा तल, 18∕4, आर्या समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली—110005, ईमेल : sbi.51521@sbi.co.in

के अन्तर्गत कब्जा सूचना

ा प्रात्म प्राप्त का प्राप्त (अपार) गायनाव्या (2002 के अपारा किसी सूचन) आर्मिपृत्तिकन को प्रमुप्तिन एवं अपित्रिक प्रवत्त अभित्या 2002 (2002 को 6) बतत भारतीय स्टेट केंब्र, 18/A, एसकीआई हाजक मा प्राविद्युत अधिकारी होने के मारी प्राप्त प्राप्तिभृति हिंद (व्यक्ति) स्थित 2002 के निवास के साथ परित्र बारा 15(2) के राहत प्रवत्त स्तितीयों का प्राप्त प्रतिविद्य दिवासों के मारी प्राप्त की स्तित स्वत्त मारी स्वतिक स्वता प्राप्त करना सिंद का प्रतिक स्वता की सिंदी के अप्त

ल हो गये हैं इसलिये एतदहारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ता

का करता, उस्त अधिनियम की धारा 15 (4) उस्ता नियमी के नियम के साथ पति के अंतर अपन अस्पतालया का मुख्य कर्या जाता है कि अधिस्तालयों ने हरना मेंगे.
व्यासकरांकों को रितेण करा से और सर्वाधारण को सामान्य कर से शोधानयी है आती के दे किया है के दिन्य सम्बन्धीयों के साथ दे स्तरीय के उस्तालयों के स्तरीय हैं अपने स्तरीय के साथ कोई भी तेम-दे के साथ कार्य के साथ कोई भी तो साथ कोई भी तेम-दे के साथ कोई भी तेम-दे के साथ कार्य के साथ कार्य के साथ कार्य के साथ कोई भी तेम-दे के साथ कार्य के साथ कार्य के साथ कोई भी तेम-दे के साथ कार्य के साथ के साथ कार्य के साथ के साथ कार्य कार कार्य के साथ कार्य क

夢 . ゼ	खाते / कर्जदार का नाम एवं पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तारीख करूजा सूचना की तारीख	बकाया राशि (धारा 13/2 नोटिस में उल्लिखित राशि)
	प्लॉट नं. 127, सेक्टर—6, वैशाली, गाजियाबाद — 201010, और: एस—501, लारोयाले अपार्टमेंट, इंदिरापुरम,	(s) सम्पत्ति पर गालिकाना हक श्री विनोद कुगार और श्रीगती सीमा पर्लेट नं. सी-467, प्रथम तल, ब्लॉक-सी, स्वर्ण जंयती पुरम, गाजियाबाद (पू.ची.) में स्थित, क्षेत्रफल 810 वर्ग फीट, चौहदी: पूरव में — सम्पत्ति नं. सी-474, पश्चिम में – 30भी. रोड, उत्तर में – सम्पत्ति नं. सी-468, दक्षिण में – सम्पत्ति सी-468	14-07-2022	 23,30,665.00 दिनांक 29.01.2022 तक और दिनांक 30.01.2022 से भविष्य का ब्याज, लागत, इत्यादि सहित

सकेल सस्य कार्यालयः अलाग्नः कार्यालयः ताई वितार, पटन पैलेस के सामने, प्राप क्लासपुर कला, रामपाट रोड, अलीग्नः, 2020/1 रिमलः (\$8183/@enthoo.in iजाब नेशनल बेंक <mark>्थि pnb</mark> punjab national bank

अप सभी नीय उनिलाबित प्रीकृतियों को एतबुद्धार यूचिया तकते हैं कि किये अबता में प्रतिक के किया है उसी पूर्व के सिंह के किया अबता में प्रतिक के किया है अबता में अपने के स्वादक स्वादक अविदास के सिंह के किया के सिंह के किया के सिंह के किया के सिंह के

रोगा।
जुन्मा भार दे कि उस अमितिमा की भारा 13 (13) के अनुसार, आर इस नीटिन की प्राप्ति के बाद, मिसते, पट्टे या अन्यवा (भारत के समान्य वाट्सकन के अलाता) विशे से कैंव की पूर लिखिक समान्त्री के मिना अपर निर्देश करती की किसी भी प्रीमेशून जातिन को रसातित नती करेंदों अक्साने कर में जोटिस दिया जाता है कि इस कियांकि निर्माक्षरमंत्रम का कोई भी उल्लेख-उस अभिनेत्रम के तहत एक अपराभ है। यदि किसी कारण से, स्थायत के स्थान अस में अग्रियत संत्रीय केची जाती है जा पट्टे पर चै जाती है, तो निक्की से प्राप्त आप पा आप स्थान कैंव के स्थान अस्त्री के निर्माक्ष के अस्त्रीय की जाती है जा पट्टे पर चै जाती है, तो निक्की से प्राप्त आप पा आप स्थान के स्थान अस्त्रीय के लिए अस्त्राची होंगी। कृपदा सद नोटिस के तहत हस साम का पतन करें और कभी अग्रिय भारतकों से मंत्री भी आपकों सभी तातती और परिचानों के तिर उस्त्राची हरताते हुए, अनं आयत्त्रस्क कर्तात्वीं सार सहता निर्मा जाता

कार्यालय	 प्रविधा को प्रीम को प्रकृति. शह पृथ्वा को हिंदि र क्कास की। (%) 		
स्वर्ग गयन्त्री नगरः अलीगढ	1. को	 अधि आवास मु व पंक्त आवास निवासी गाती ने, 01 गूरते कि, अलीफ अलिफ, 20001 मुरीत के, गीड पुत्र पुरारी लाल गीड, निवासी -5/118 सर्वोदन गार, बरील जानशाबार, बान पास, अलीफ, 202001 	आवासीय मतैर के सभी डिस्से का इक्किटेक्टा बंधक। पाप 71.11 व
रापमार रोड. रवर्ग गमनी	1. জার্ম: 530,930 NC 0300 2558 2. জন্মথি কল - 27,00,000/- 3. 16-06-2022 4. ত্ব. 31,90,063,001-01,05,2022 हो ज्यान	 असव कुमार शर्मा कुम पावनी प्रसाद रागी. निवाद स्थान संदय 25 हरूमी 10, १-१४ गाना निकाम, प्रोकेश करियों अलीवर- 202001 सुम्पण शर्मा प्रमा अपन कुमार रागी निवासी प्रकान मंत्रर 25 हरूरी. 10, १-१४ गाना क्रिमा, प्रोकेश करियोंनी अलीवर 202001 	सीपार्टः पर्वः प्रदीव जैन का घर, पश्चिमः पनोरंजन अग्रवाल का घर, उत्तर
रापमार रोड. रवर्ष जयन्त्री नगर.	1. व्यारे 350300HC00000149 2. व्यारि वन :2700,000V- 3. 11:07.2022 4. 7. 22455077,001:01:07.2022 से ज्यास दर्व अन्य अभ्यार	1. पेंच सिंक पून जो रेर बना सिंक (कर्मारा) भिवासी-155 र और कर्मानी राज्यती के उत्तरीगढ़-202001 2. जिमीह सिंह कुत को रेग पत्त सिंक एक्ट कर्मारा जिल्ला के रेग पत्त सिंक 20201 20201 अभीवती उर्शिक्त देवी पत्नी की रेग पाना सिंक भिवासी-155 र जी र करितीने राज्यती केर उस्तीगढ़-202001	संबंधि का इक्षिप्रदेशन बंधक (रावारी भी प्रेम सिंह पुत्र शेर पान सिंह की संद्या-3:55 भाग साम सम्मातमा भागून तेत्र अलीक में बिक्री बिलोक बिलामा- की में 1.1 जिल में २००० पुत्र संस्था-11/14(कार्या-250, जिलाम 17/55,2005 मिन्नास सीवार्ड (पूर्व-विक्रोण की भूमि, पाडिय- पूर्वक ब्रिकोण का, उत्तर-15' बीवा रास्त दक्षिण, क्रमणी सिंह की पूर्वि

APRIGLOBAL केप्री ग्लोबल केपिटल लिगिटेड CAPITAL LIMITED क्षान वर्षका १७६ तमा १५ तमा प्रतिकार क्षार कार्य त्या प्रतिकार क्षार कार्य क्षार कार्य कार्य क्षार कार्य कार्य क्षार कार्य कार्य

अपनल सम्पतियों की विक्रती हैतु विक्रय सूचना की मिक्री हैतु मिक्रय पूचन। १८०३ के त्रियम ६८० के प्राम्मकों के साथ प्रीक्त निर्माण के प्रश्नीत मिक्रय सुक्तान की मिक्री हैतु मिक्रय पूचन। १८०० राज्याचन को तथा मिक्रों कर पे ज्वांतर हैं। जे सुन्तान की है कि प्रीकृत तेनात के पता संस्कर अपीत नीन मोक्री अपना प्रपत्ती निर्मा प्रकेष निर्माण के प्रत्यों के जेवा की हैं कि प्रत्यों के सुन्ता के प्रत्यों की मुख्या के किए की हैं कि प्रत्यों के कि प्रत्यों के मुख्या निर्माण के मिक्रय कि प्रत्यों की मुख्या के स्वाप्त के किए की किए की प्रत्यों के मिक्रय की प्रत्यों की मिक्रय कि प्रत्यों की मिक्रय की प्रत्यों के मिक्रय की प्रत्यों की स्वाप्त नेन मिक्रय की प्रत्यों के मिक्रय कि प्रत्यों की प्रत्यों के मिक्रय निर्माण नेन मिक्रय की प्रत्यों के मिक्रय की प्रत्यों की प्रत्यों के मिक्रय निर्माण नेन मिक्रय की प्रत्यों के प्रत्यों की प्रत्या की प्रत्या की प्रत्यों की प्रत्या क

क्र सं	1. कर्जदार(में) का नाम 2. बकाया ग्रींग	संधक सम्पति का विकास	 ई-नीलापी की तिथि एवं सपय ईएपडी जपा करने की अन्तिप तिथि 		
1.	चैसर्स जम अन्मे टेट झडस ('कर्जबर') शी वेहिन भारताज शी वरम पाल	पानान संख्या 208 (कर प्रति के अनुसार) क्षेत्रकल 82.5 पर्ग गज, पाता कॉलोगी, विजय नगर, खराय संख्या 48042, प्राम मिर्जापुर, गानियासार, उत्तर	एवं सपय	 वर्धित पूल्य आरक्षित पूल्य : रु. 20,81,000/- (रुपये मीस लाख इच्याती इजार) 	
5 3 7	4. औं दिनेत दुन्पर 5. औं दिवन दुन्पर तथं (रह-कर्जवार) प्रण खाता संवंध LNCGCIPGTL0000003492 रुपने 20,72,888 - (रुपने क्षण्येश ताख महत्तर हजार अत यो अहतारों मात्रा स्मान संहित 1407,2022 ये तथा भागी म्यान के राह्म।	प्रदेश	इं-नीलापी शिषि : 19.08.2022 (3300 मणे अप. से 4:00 मणे अप. के भीषा) सीपा) सेमाईसी व्रक्ति ईएमाडी जमा करने की अस्तिम शिष : 18.08.2022 3. निरीक्षण की शिष : 17.08.2022	जमा भरोकर रही : रु. 2,0,000/- (रुपमे दो लाख नी इजार मात्र) मृद्धि मूल्य रु. 20,000/- (रुपमे मीरा इजार मात्र)	
Z	1. জী গাঁবে নাৰ্য ('ভানবাং') 2. জী বাঁবু নাৰ্য 3. জীবা বাঁবি বা নাৰ্য 4. জীবা বাঁবি ভানবাংকা কৰে। 4. জীবা বাঁবি ভানবাংকা কৰে ভানবাং 4. জীবা বাঁবি ভানবাংকা কৰে। 4. জীবা বালবাংকা কৰে। 4. জীবা বালবাংকা বাংকা বাবি বালবাংকা 4. জীবা বালবাংকা বাংকা বাংকা বাংকা বাংকা 4. জীবা বালবাংকা বাংকা বাংকা বাংকা বাংকা বাংকা বাংকা বাহব বাংকা বাংকা বাংকা বাংকা বাংকা বাংকা বাহব বাংকা বাংকা বাংকা বাংকা বাংকা বাংকা বাহব বাংকা	रोशित संबच्चा 95, याच 83.61 को पीसर, खारता में, III, गिरमर एंक्सेच, गाँव उच्च उच्च गाईन कोरोंकी, प्रणात तोगींच, उच्चेला और दिता गाँवियाच्या, उत्तर प्रदेश में हिस्सा, योजाएँ- पूर्व: 25 और मोडी रोड, प्रीत्मार, प्यॉट में, 107, उच्च एपॉर्ट में, 94, प्रीक्षण, प्याँट में, 96	(300 मने अप. से 400 मने अप. के मीम) 2. केमाईसी सहित ईएमडी जमा करने	आर्थका मुल्यः र 51,84,000/- (रूप्ये इच्यामा राज्य चीरार्धे कणार पात्र) ज्ञाम अरोहर येथिः र 5,18,400/- (रूपये पान राज्य अरावङ क्रमार चार र्यो पात्र, मृद्धि सूरणः र 50,000/- (रूपये पनास क्रमार पात्र)	
A	मेरार्व और पी. हिम्मूर पर्मेंड ("कार्मदार") श्री मूम मारातम श्री मारातम श्री मारातम श्री मारा पर्मेंच (मह-कार्मदार) श्रीमारी पान मार्ग (मह-कार्मदार) श्रम सहात संस्ता (NNCCCKKDTL0000004198 १८.२४०,९३५२ - एकमे माराज्य राणाच्या आरीत हनार नी ची विभागी मात्र। राम्म 07.12.2021 से भागी राणा म्यान।	फालन में, 554, खेवरण्डादा में, 541,37025 में रे, खराता में, 1,2716/3890/903-910, 3582/999 (०-०-13,172) फिरोज गांधी जॉरोनीचे-1, तस्त्रीत और जिला गुडगांव, हरियाना में रिस्त है	(3:00 मजे अप. से 4:00 मजे अप. के	आरक्षित पूरण : र. 43,73,000/- (रुपमे वैद्यातीत राष्ट्र विकास क्रमार पात्र) जमा भरीहर यति : र. 4,36,000/- (रुपमे भार राष्ट्र अक्टबीव क्रमार पात्र) पृष्टि पूरण र. 20,000/- (रुपमे मीरा क्रमार भात्र)	

किसने के सिद्धा है तथा 0.12.2021 से पानी राणु भावता |

किसने के सिद्धा है तथा एवं को होता क्रूपण केवी राणिया केवी होता है तथा केवी होता है तथा है तथ

निर्मा जो जागेथी।

30 कर्मीया, देशेल पुरूष, प्रांतिकार प्रधार एवं अबन अवस्थित एपारी हुं। अधेना विश्वेत अधारी का स्वान नीताओं तेना प्रधार किया जागेथा।

21. अभिकृत प्रविक्ता क्षित्रकारी केला क्षीत्रकार आसी हैं नीताओं किया की स्थानित क्षित्रकार कर राजते हैं। वहीं है नीताओं कियी के 15 रिसे से पूर्व हैं
केला करना की स्थान पर प्रविक्ति किया जागेथा।

22. अभिकृत क्षित्रकार की क्षित्र करिया, सामापारी कामा प्रशासन किया होगा।

23. अभिकृत का सामे कामा केला करिया, सामापारी कामा प्रशासन किया होगा।

24. अभिकृत का सामे कामा कामा कामिताओं से हित्त प्रधासन क्षित्रकार कियो की क्षीत्र केला पर प्रधासन क्षीत्रकार की क्षा

773001798. 25 कर प्रथमात पर्युक्त विकिथ्यमा पर गीणको मिन्नी आवीरात होने के मिन्न पे प्रविकृति हिन (इस्तिन) निषय 2(a) के समूरत राज्येन प्रकृत प्रश्न के कर्तारा कराया होनी हुए 30 (का) किने जी पुरुष के हैं है अपने निर्देश में प्रथम निष्या है के प्रथम निष्या के मोने स्थाने से मीनेस्था स्वयं के हिन ये प्रयोग न में बैजी गानेस्था वैतीयत निर्देश और न ही मेणा इदला हैसे प्रयोग में मीनेस्थायन कर के हिन ये प्रयोग न में बैजी प्रयोग के स्थान क्षित्र कर कर के स्थान के स्थान के सिंप भीत्र कर किनेस के मिन्न भीत्र कर का के सिंप भीत्र कर आपना कर प्रयोग के स्थान कर प्रयोग के सिंप कर प्रयोग के स्थान के सिंप क्षित्र के स्थान अभीवात हो, का से बालि ये हैसी लिया प्रतिभागि से निरंप सके और नीसारी में स्वस्तात्रपूर्वक भागा ने सहे। स्थान (दिन्सी किने 16 क्षार्थ, 2021)

www.readwhere.com

का प्लाट, पारवम रास्ता 15 काट वाका, उत्तर आमा राजो देवी का प्लॉट अब श्रीमती राम वरी का प्लॉट दक्षिण विक्रेता का बचा हुआ प्लॉट अब दूसरों व

